

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2016—चैत्र 2, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 (चैत्र 2, 1938)

विधान सभा के सदस्य की निधन की सूचना

क्र.10528-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 132-घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सज्जन सिंह उईके का दिनांक 19 मार्च, 2016 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए. पी. सिंह  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.